





7.9.15  
 7.9.15  
 86.9.15  
 86.9.15  
 86.9.15


1	2	3	4	5	6	7	8	9
	296	30 फीस 30 फीस	$\frac{30}{9}$	0.3333333333				
	248	30 फीस 30 फीस	$\frac{30}{9}$	0.3333333333				
	248	30 फीस 30 फीस	$\frac{30}{9}$	0.3333333333				
	248	30 फीस 30 फीस	$\frac{30}{9}$	0.3333333333				
	248	30 फीस 30 फीस	$\frac{30}{9}$	0.3333333333				
	248	30 फीस 30 फीस	$\frac{30}{9}$	0.3333333333				

Ravish Kumar Sahi  
 Sweta Sahy

✓

7.9.15  
 7.9.15





मुद्रक तालिका  
 प्रतिदिन के लिए  
 1. आवेदन की 0-8-20  
 2. तलाशी की 0-20  
 3. अतिरिक्त की 0-20  
 4. प्रमाणित की 0-20  
 5. प्रमाणित की 0-20  
 6. प्रमाणित की 0-20  
 7. प्रमाणित की 0-20  
 8. प्रमाणित की 0-20  
 9. प्रमाणित की 0-20  
 10. प्रमाणित की 0-20

क्र.सं.	विवरण	पृ.सं.	दिनांक	सं.सं.	विवरण	पृ.सं.	दिनांक	सं.सं.	विवरण
202	30 पत्रिका	202	30	10-12-0-08-1	गोशिका	7	0-12-0-08-1	सी.एस.डी. एक्ट धारा 24(2)(b) के तहत, नं. 10/15/15 के अन्वये जारी किया गया।	10/15/15
203	30 पत्रिका	203	30	10-12-0-08-1	गोशिका	7	0-12-0-08-1	सी.एस.डी. एक्ट धारा 24(2)(b) के तहत, नं. 10/15/15 के अन्वये जारी किया गया।	10/15/15
204	30 पत्रिका	204	30	10-12-0-08-1	गोशिका	7	0-12-0-08-1	सी.एस.डी. एक्ट धारा 24(2)(b) के तहत, नं. 10/15/15 के अन्वये जारी किया गया।	10/15/15
205	30 पत्रिका	205	30	10-12-0-08-1	गोशिका	7	0-12-0-08-1	सी.एस.डी. एक्ट धारा 24(2)(b) के तहत, नं. 10/15/15 के अन्वये जारी किया गया।	10/15/15
206	30 पत्रिका	206	30	10-12-0-08-1	गोशिका	7	0-12-0-08-1	सी.एस.डी. एक्ट धारा 24(2)(b) के तहत, नं. 10/15/15 के अन्वये जारी किया गया।	10/15/15
207	30 पत्रिका	207	30	10-12-0-08-1	गोशिका	7	0-12-0-08-1	सी.एस.डी. एक्ट धारा 24(2)(b) के तहत, नं. 10/15/15 के अन्वये जारी किया गया।	10/15/15



Record of the...  
 Published under Section 25C  
 of the Chotanagpur Tenancy Act  
 on 15.12.1961  
 The certificate of final publication was  
 signed on 15.12.1961.

Sr.elligible  
 Settlement Officer  
 SINGHRAJIM

10/15/15  
 10/15/15  
 10/15/15  
 10/15/15